



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]  
No. 33]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2007/माघ 20, 1928  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2007/MAGHA 20, 1928

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2007

New Delhi, the 8th February, 2007

सं. ए-12016/63/2006-एससीडी (आर एल).—भारत सरकार ने अनधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश और अर्द्धखानाबदोश जनजातियों के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आयोग का कार्यकाल 06-02-2007 से 05-02-2008 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाने का संकल्प लिया है।

No. 12016/63/2006 SCD(RL).— The Government of India resolved to extend the term of the National Commission to study the developmental aspects of Denotified Tribes, Nomadic and Semi-nomadic 'Tribes' for one year from 06-02-2007 to 05-02-2008.

डी. वी. एस. रंगा, संयुक्त सचिव

D. V. S. RANGA, Jt. Secy.